



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012025-260432
CG-DL-E-24012025-260432

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार जनवरी 23, 2025/माघ 3, 1946

No. 435]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2025
सं. 53/2024-25

विषय: विदेश व्यापार नीति 2023 के अध्याय 4 के तहत 'हीरा अग्रदाय प्राधिकार-पत्र' के रूप में एक नई स्कीम को शुरू करना।

का.आ. 439(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023, के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 के अध्याय 4 में निम्नलिखित संशोधनों को अधिसूचित करती है:

1. विदेश व्यापार नीति 2023 में नए पैरा को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

4.60 हीरा अग्रदाय प्राधिकार-पत्र (डीआइए)

प्राकृतिक रूप से कटे और पॉलिश किए हीरों के आयात के लिए हीरा अग्रदाय प्राधिकार-पत्र दिया जा सकता है, जिसमें अर्ध-संसाधित, आधे कटे और टूटे हुए हीरे शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक के कैरेट के वजन का 1/4 (25 सेंट) से अधिक नहीं है, जिसके तहत प्राकृतिक रूप से कटे और पॉलिश किए हीरों का भौतिक

निर्यात किया जाना है। ऐसे प्राधिकार-पत्र पर विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, मुक्त विदेशी मुद्र में 10% का न्यूनतम मूल्य वर्धन प्राप्त करने का एक निर्यात दायित्व होगा, जिसे इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जाना होगा। हीरा अग्रदाय प्राधिकार-पत्र लैब-ग्रोन डाइमंड्स (एलजीडी) पर लागू नहीं होगा।

4.61 योग्यता

दो सितारा निर्यात हाऊस स्तर या इससे ऊपर वाला एक निर्यातक और जिसने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष कटे हुए और पॉलिश किए हीरों में 15 मिलियन अमरीकी डॉलर का न्यूनतम निर्यात निष्पादन प्राप्त किया है और उन वर्षों की जीएसटी और आयकर रिटर्न भरा है, उसे हीरा अग्रदाय प्राधिकार-पत्र दिया जा सकता है। यह प्राधिकार पत्र 15 मिलियन अमरीकी डॉलर के अधिकतम मूल्य के अधीन पिछले तीन वित्तीय वर्षों पर कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों के औसत वार्षिक निर्यात निष्पादन के 5% तक प्राकृतिक रूप से कटे एवं पॉलिश किए हुए हीरों को आयात अनुमत करता है।

4.62 निर्यात दायित्व

प्रत्येक आयात खेप के तहत निर्यात दायित्व सीमा शुल्क के माध्यम से ऐसी खेप की निकासी की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। सभी आयात और निर्यात केवल मुम्बई हवाई पत्तन के माध्यम से किए जाएंगे। आयातक को बाद में निरीक्षण यदि कोई हो, के लिए आयात एवं निर्यात से सम्बंधित समस्त दस्तावेजों का प्रासंगिक/उचित रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक होगा।

4.63 छूट प्राप्त शुल्कों का विवरण

हीरा अग्रदाय प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत आयातों को मूल सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, पाटन-रोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, सुरक्षा शुल्क, परिवर्तन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क, जहां भी लागू हो, के भुगतान से छूट दी गई है। ऐसे आयातों को सीमा शुल्क प्रगुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (7) और उप-धारा (9) के अंतर्गत क्रमशः लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से भी छूट दी गई है।

4.64 हीरा अग्रदाय प्राधिकार-पत्र के लिए वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त और आयात-पूर्व शर्त

(i) हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र और हीरा अग्रदायी प्राधिकार पत्र के अंतर्गत आयातित सामग्री 'वास्तविक उपयोगकर्ता' शर्त के अधीन होगी। निर्यात दायित्व पूरा होने के बाद भी इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

(ii) हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र आयात-पूर्व शर्त के अधीन है।

2. विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.32 में उप पैरा (v) को निम्नानुसार जोड़ा जा सकता है:

(v) हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र

इस अधिसूचना का प्रभाव: भारत से हीरों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 'हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र' (डीआईए) स्कीम शुरू की गई है। यह स्कीम दिनांक 01.04.2025 से लागू की जाएगी।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/94/180/152/एम20/पीसी-4]

संतोष कुमार सारंगी महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
Directorate General of Foreign Trade

NOTIFICATION
New Delhi, 21st January 2025
No. 53/2024-25

Subject: Introduction of new Scheme as ‘Diamond Imprest Authorisation’ under Chapter 4 of Foreign Trade Policy 2023.

S.O. 439(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with Paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the following amendments in Chapter 4 of the Foreign Trade Policy 2023:

1. New paras may be added to the FTP 2023, as follows:

4.60 Diamond Imprest Authorisation (DIA)

Diamond Imprest Authorization may be granted for the import of Natural Cut and Polished Diamonds, including semi-processed, half-cut, and broken diamonds, each weighing no more than $\frac{1}{4}$ Carat (25 Cents), against which the physical export of Natural Cut and Polished Diamonds has to be carried out. Such Authorisation shall carry an export obligation to achieve a minimum value addition of 10% by realizing in

Free Foreign Exchange, within specified time limits, which has to be discharged in accordance with the procedure specified in this behalf. The Diamond Imprest Authorisation does not apply to Lab-Grown Diamonds (LGDs).

4.61 Eligibility

An exporter with a Two Star Export House status or above, and having achieved a minimum export performance of US\$ 15 million in Cut & Polished Diamonds each year for the past three financial years and having filed all GST and Income Tax returns for those years, may be granted a Diamond Imprest Authorization. This authorization allows the import of Natural Cut & Polished Diamonds up to 5% of the average annual export performance of Cut & Polished Diamonds over the previous three financial years subject to a maximum value of US\$ 15 million.

4.62 Export Obligation

The export obligation against each import consignment shall be fulfilled within a period of six months from the date of clearance of such consignment through Customs. All imports and exports shall be made only through Mumbai Air Port. The importer shall be required to maintain relevant/ appropriate records of imports & exports for subsequent inspection if any.

4.63 Details of Duties exempted

Imports under Diamond Imprest Authorisation are exempted from payment of Basic Customs Duty, Additional Customs Duty, Education Cess, Anti- dumping Duty, Countervailing Duty, Safeguard Duty, Transition Product Specific Safeguard Duty, wherever applicable. Such, imports are also exempt from whole of the Integrated Tax and Compensation Cess leviable under sub-section (7) and sub-section (9) respectively, of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

4.64 Actual User Condition and Pre-Import Condition for Diamond Imprest Authorisation

i. Diamond Imprest Authorisation and material imported under Diamond Imprest Authorisation shall be subject to 'Actual User' condition. The same shall not be transferable even after completion of export obligation.

ii. Diamond Imprest Authorisation is subject to Pre-Import Condition.

2. Sub para (v) may be added in para 4.32 of FTP as under:

(v) Diamond Imprest Authorisation.

Effect of this Notification: The 'Diamond Imprest Authorisation' (DIA) Scheme has been introduced to boost exports of Diamonds from India. The scheme will be implemented with effect from 01.04.2025.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/94/180/152/AM20/PC-4]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade, Ex-Officio Addl. Secy.